

Instructions:

1. There are a total of 75 questions and each question carries one mark. There is no negative marking for a wrong answer. कुल 75 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है।
2. Do not overwrite. Dual answers shall not fetch any marks. अधिलेखित न करें। दोहरे उत्तर कोई अंक नहीं लाएंगे।
3. All questions are to be answered on the question paper only. सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र पर ही देने हैं।
4. Use blue/ black ball pen to mark the answer. Answer marked with pencil shall not fetch any marks. / उत्तर अंकित करने के लिए नीले / काले बॉल पेन का प्रयोग करें। पेंसिल से चिह्नित उत्तर पर कोई अंक नहीं आएगा।

{TICK(✓)THE CORRECT ANSWER} सही उत्तर को (✓) द्वारा दर्शाये

- Q.1. What is the smallest bone in the human body? / मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
- (a) The Stapes / स्टेपीज (c) Malleus / कान की हड्डी
(b) Sternum / उरास्थि (d) Patel / पटेल
- Q.2. What is the chemical formula for table salt? / नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?
- (a) H₂SO₄ (c) NaCl
(b) HNO₃ (d) K₂CO₃
- Q.3. Which of the following is NOT a greenhouse gas? / निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
- (a) Carbon dioxide / कार्बन डाइऑक्साइड (c) Oxygen / ऑक्सीजन
(b) Methane / मीथेन (d) Water vapor / जल वाष्प
- Q.4. What is the largest organ in the human body? / मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
- (a) Brain / दिमाग (c) Heart / हृदय
(b) Skin / त्वचा (d) Liver / जिगर
- Q.5. Which gas is produced when an acid reacts with a metal? / धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
- (a) Hydrogen / हाइड्रोजन (c) Nitrogen / नाइट्रोजन
(b) Oxygen / ऑक्सीजन (d) Carbon dioxide/ कार्बन डाइऑक्साइड
- Q.6. What is the name of the process by which a liquid turns into a gas at a temperature below its boiling point?/उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदल जाता है?
- (a) Evaporation / वाष्पीकरण (c) Melting / पिघलना
(b) Sublimation / उच्च बनाने की क्रिया (d) Condensation / संक्षेपण
- Q.7. What is the process by which plants release water vapour into the air called? /पौधों द्वारा वायु में जलवाष्प छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
- (a) Photosynthesis / प्रकाश संश्लेषण (c) Respiration / श्वसन
(b) Transpiration / वाष्पोत्सर्जन (d) Evaporation / वाष्पीकरण
- Q.8. Which planet in our solar system is known for its rings? / हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए जाना जाता है?
- (a) Jupiter / बृहस्पति (c) Neptune / नेपच्यून
(b) Saturn / शनि (d) Uranus / यूरेनस
- Q.9. Which of the following elements is a metal? / निम्न में से कौन सा तत्व धातु है?
- (a) Nitrogen / नाइट्रोजन (c) Oxygen / ऑक्सीजन
(b) Carbon / कार्बन (d) Iron / लोहा
- Q.10. Which of the following is NOT a state of matter? / निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है?
- (a) Solid / ठोस (c) Plasma / प्लाज्मा
(b) Gas / गैस (d) Liquidation / परिसमापन

Q.11. Who is known as the "Father of Modern Genetics"? / "आधुनिक आनुवंशिकी के जनक" के रूप में किसे जाना जाता है?

- (a) Charles Darwin / चार्ल्स डार्विन (c) Louis Pasteur / लुई पाश्चर
(b) Gregor Mendel / ग्रेगर मेंडल (d) Robert Koch / रॉबर्ट कोच

Q.12. What is the name of the process by which living organisms break down glucose to produce energy? / जीव ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं-

- (a) Photosynthesis / प्रकाश संश्लेषण (c) Digestion / पाचन
(b) Respiration / श्वसन (d) Excretion / उत्सर्जन

Q.13. What is the acceleration due to gravity near the surface of the Earth? / पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना है?

- (a) 9.8 meters per second square / 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग
(b) 1.62 meters per second square / 1.62 मीटर प्रति सेकंड वर्ग
(c) 3.71 meters per second square / 3.71 मीटर प्रति सेकंड वर्ग
(d) 24.79 meters per second square / 24.79 मीटर प्रति सेकंड वर्ग

Q.14. What is the name of the largest ocean on Earth? / पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

- (a) Atlantic Ocean / अटलांटिक महासागर (c) Pacific Ocean / प्रशांत महासागर
(b) Indian Ocean / हिंद महासागर (d) Arctic Ocean / आर्कटिक महासागर

Q.15. What is the name of the process by which a solid turns directly into a gas without becoming a liquid first? / ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं-

- (a) Evaporation / वाष्पीकरण (c) Melting / पिघलने की क्रिया
(b) Sublimation / उच्च बनाने की क्रिया (d) Freezing / जमने की क्रिया

Q.16. Who was the first president of the United States of America? / अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

- (a) Thomas Jefferson / थॉमस जेफरसन (c) John Adams / जॉन एडम्स
(b) George Washington / जॉर्ज वाशिंगटन (d) James Madison / जेम्स मैडिसन

Q.17. What is the capital city of Japan? / जापान की राजधानी है-

- (a) Tokyo / टोक्यो (c) Osaka / ओसाका
(b) Kyoto / क्योटो (d) Hiroshima / हिरोशिमा

Q.18. Which of the following is NOT a state in India? / निम्न में से कौन भारत का राज्य नहीं है?

- (a) Uttarakhand / उत्तराखंड (c) Tibet / तिब्बत
(b) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश (d) Kerala / केरल

Q.19. Which country is known as the "Land of the Rising Sun"? / उगते सूरज क देश किसे कहा जाता है?

- (a) Japan / जापान (c) South Korea / दक्षिण कोरिया
(b) China / चीन (d) North Korea / उत्तर कोरिया

Q.20. In which year did India gain independence from British colonial rule? / भारत ने किस वर्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी?

- (a) 1945 (c) 1948
(b) 1946 (d) 1947

Q.21. Which of the following is NOT one of the three branches of the United States government? / निम्न में से कौन संयुक्त राज्य सरकार की तीन शाखाओं में से एक नहीं है?

- (a) Legislative / विधायी (c) Judicial / न्यायिक
(b) Executive / कार्यकारी (d) Military / सैन्य

Q.22. Who wrote the Indian national anthem "Jana Gana Mana"? / भारत का राष्ट्र गान किसने लिखा?

- (a) Rabindranath Tagore / रवींद्रनाथ टैगोर (c) Sarojini Naidu / सरोजिनी नायडू
(b) Bankim Chandra Chatterjee / बंकिम चंद्र चटर्जी (d) Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी

Q.23. Which ancient civilization is known for inventing the wheel? / किस प्राचीन सभ्यता को पहिले का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है?

- (a) Egyptian / मिस्र (c) Greek / ग्रीक
(b) Mesopotamian / मेसोपोटमिया (d) Roman/रोमन

Q.24. Which of the following is NOT one of the Seven Wonders of the Ancient World? / निम्न मे से कौन प्रचीन विश्व के सात आश्चर्यों मे से एक नहीं है?

- (a) The Great Pyramid of Giza / गीजा का महान पिरामिड
(b) The Hanging Gardens of Babylon / बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन
(c) The Colossus of Rhodes / रोड्स के बादशाह
(d) The Eiffel Tower / एफिल टॉवर

Q.25. Who was the first prime minister of India? / भरत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?

- (a) Jawaharlal Nehru / जवाहरलाल नेहरू (c) Rajiv Gandhi / राजीव गांधी
(b) Indira Gandhi / इंदिरा गांधी (d) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी

Q.26. What is the theme of International Girls in ICT Day 2023? / आईसीटी दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या है?

- (a) Empower girls / लड़कियों को सशक्त बनाना (c) STEM / स्टेम
(b) Digital Skills for Life / जीवन के लिए डिजिटल कौशल (d) Science Skills for Life /जीवन के लिए विज्ञान कौशल

Q.27. If 3 oranges and 2 bananas cost Rs. 35, and 2 oranges and 3 bananas cost Rs. 30, what is the cost of one orange and one banana? / यदि 3 संतरे और 2 केले का मूल्य रु. 35, और 2 संतरे और 3 केले का मूल्य रु 30 है तो एक संतरे और एक केले की कीमत क्या होगी?

- (a) Rs. 5/ रु 5 (c) Rs. 7/ रु 7
(b) Rs. 6 / रु 6 (d) Rs. 8 / रु 8

Q.28. Which number comes next in the following sequence: 1, 4, 9, 16, 25,... ? / निम्नलिखित क्रम में कौन सी संख्या आगे आती है: 1, 4, 9, 16, 25,...?

- (a) 36 (c) 64
(b) 49 (d) 81

Q.29. What is the missing number in the following sequence: 2, 5, 11, 23? / निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है: 2, 5, 11, 23?

- (a) 47 (c) 49
(b) 48 (d) 50

Q.30. If A is the father of B, B is the son of C, and C is the father of D, who is B to D? / यदि A, B का पिता है, B, C का पुत्र है, और C, D का पिता है, तो B का D से क्या रिश्ता है?

- (a) Brother / भाई (c) Father / पिता
(b) Uncle / चाचा (d) Grandfather / दादा

Q.31. Which letter comes next in the following sequence: A, E, I, M, Q,...? / निम्नलिखित क्रम में अगला अक्षर कौन सा आता है: A, E, I, M, Q,...?

- (a) S (c) U
(b) T (d) V

Q.32. What is the missing number in the following sequence: 1, 2, 6, 24, ? / निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है: 1, 2, 6, 24,?

- (a) 96 (c) 144
(b) 120 (d) 168

Q.33. Which of the following words is different from the others? / निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है?

- (a) Elephant / हाथी
(b) Lion / शेर

- (c) Giraffe / जिराफ
(d) Fish / मछली

Q.34. Which of the following numbers is the odd one out? / निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम है?

- (a) 9
(b) 27

- (c) 64
(d) 125

Q.35. Which of the following is a synonym for "conundrum"? / निम्नलिखित में से कौन सा शब्द "पहेली" का पर्यायवाची है?

- (a) Solution
(b) Riddle

- (c) Confusion
(d) Question

Q.36. What is the next shape in the following pattern? / निम्नलिखित पैटर्न में अगली आकृति क्या है?

Square, Circle, Triangle, Square, Circle, Triangle, Square, Circle, ? / वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, ?

- (a) Triangle / त्रिभुज
(b) Square / वर्ग

- (c) Circle / वृत्त
(d) Star / तारा

Q.37. Which tribe is playing a major role in 'Protect Hornbills Project'? / प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्ल्स प्रोजेक्ट में कौन सी जनजाति प्रमुख भूमिका निभा रही है?

- (a) Nyishi Tribe / निशि जनजाति
(b) Baiga Tribe / बैगा जनजाति

- (c) Bodo Tribe / बोडो जनजाति
(d) Bhil Tribe / भील जनजाति

Q.38. If the first two statements are true, is the third statement true as well? / यदि पहले दो कथन सत्य हैं, तो क्या तीसरा कथन भी सत्य है?

All trees are plants./ सभी पेड़ पौधे हैं। All plants are green./ सभी पौधे हरे हैं। All trees are green. / सभी पेड़ हरे हैं।

- (a) True

- (b) False

Q.39. Recently, India has opted out of which pillar of 'Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)'? / हाल ही में, भारत ने 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)' के किस स्तंभ से बाहर निकलने का विकल्प चुना है?

- (a) Trade / व्यापार
(b) Supply chain / आपूर्ति श्रृंखला

- (c) Clean Economy / स्वच्छ अर्थव्यवस्था
(d) Fair Economy / उचित अर्थव्यवस्था

Q.40. Which of the following is the opposite of "brave"? / निम्नलिखित में से कौन सा "बहादुर" के विपरीत है?

- (a) Timid / डरपोक
(b) Bold / बोल्ड

- (c) Confident / आत्मविश्वास
(d) Courageous / साहसी

Q.41. If all balls are cubes, and some cubes are blue, then which of the following statements must be true? / यदि सभी गेंदें घन हैं, और कुछ घन नीले हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) All cubes are balls./ सभी क्यूब बॉल हैं।
(b) Some balls are blue./ कुछ गेंदें नीली हैं।
(c) No cubes are balls/ कोई क्यूब बॉल नहीं है।
(d) Some cubes are not blue / कुछ घन नीले नहीं है

Q.42. If all flowers are trees, and some trees are evergreen, then which of the following statements must be true? / यदि सभी फूल पेड़ हैं, और कुछ पेड़ सदाबहार हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) All evergreen things are trees. / सभी सदाबहार चीजें पेड़ हैं।
(b) All trees are evergreen. / सभी पेड़ सदाबहार हैं।
(c) Some evergreen things are not flowers. / कुछ सदाबहार चीजें फूल नहीं हैं।
(d) Some flowers are not evergreen. / कुछ फूल सदाबहार नहीं हैं।

Q.43. Which city hosted the Shanghai Corporation Organisation (SCO) Film Festival 2023? / किस शहर ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की?

- (a) Gandhinagar / गांधीनगर
- (b) Mumbai / मुंबई
- (c) Mysure / मैसूर
- (d) Kochi / कोच्चि

Q.44. 'Copernicus Climate Change Service (C3S)' is associated with which association? / 'कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S)' किस संघ से जुड़ी है?

- (a) ASEAN/ आसियान
- (b) G-20/ जी -20
- (c) EU/ यूरोपीय संघ
- (d) ISA/ आईएसए

Q.45. Namda, is the centuries-old traditional craft, is associated with which state/UT? / नमदा, सदियों पुराना पारंपरिक शिल्प है, जिसका संबंध किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से है?

- (a) Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश
- (b) Assam / असम
- (c) Jammu and Kashmir / जम्मू और कश्मीर
- (d) Uttarakhand / उत्तराखंड

Q.46. If all apples are fruits, and all fruits are healthy, then which of the following statements must be true?/ यदि सभी सेब फल हैं, और सभी फल स्वस्थ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) All healthy things are apples./ सभी स्वस्थ चीजें सेब हैं।
- (b) Some healthy things are not fruits. / कुछ स्वस्थ चीजें फल नहीं हैं।
- (c) No fruits are healthy./ कोई फल स्वस्थ नहीं हैं।
- (d) All fruits are apples./ सभी फल सेब हैं।

Q.47. If all cats are black, and all black things are tall, then which of the following statements must be true?/ यदि सभी बिल्लियाँ काली हैं, और सभी काली वस्तुएँ लंबी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) Some tall things are not cats. / कुछ लंबी चीजें बिल्लियाँ नहीं हैं।
- (b) All tall things are cats./ सभी लम्बी वस्तुएँ बिल्लियाँ हैं।
- (c) No cats are tall. / कोई बिल्लियाँ लंबी नहीं हैं।
- (d) All cats are tall. / सभी बिल्लियाँ लंबी हैं।

Q.48. If no books are pens, and all pens are pencils, then which of the following statements must be true? / यदि कोई किताब पेन नहीं है, और सभी पेन पेंसिल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) No books are pencils. / कोई किताब पेंसिल नहीं है।
- (b) All pencils are books. / सभी पेंसिलें किताबें हैं।
- (c) Some books are not pencils. / कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं।
- (d) Some pencils are not books. / कुछ पेंसिलें किताबें नहीं हैं।

Q.49. When is the 'National Science Day' celebrated every year? / हर साल 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' कब मनाया जाता है?

- (a) February 21/ 21 फरवरी
- (b) February 24 / 24 फरवरी
- (c) February 28 / 28 फरवरी
- (d) March 3 / 3 मार्च

Q.50. 'Satuani and Jur Sital' are the festivals celebrated in which state / UT. / 'सतुआनी और जुर शीतल' किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं।

- (a) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- (b) Bihar / बिहार
- (c) Assam / असम
- (d) Karnataka / कर्नाटक

Q.51. If all snakes are reptiles, and all reptiles are cold-blooded, then which of the following statements must be true? / यदि सभी साँप सरीसृप हैं, और सभी सरीसृप ठंडे खून वाले हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) All cold-blooded things are snakes. / सभी ठंडे खून वाली चीजें साँप हैं।
- (b) No snakes are cold-blooded. / कोई भी साँप कोल्ड ब्लडेड नहीं होता है।
- (c) All snakes are cold-blooded. / सभी साँप ठंडे खून वाले होते हैं।
- (d) All reptiles are snakes. / सभी सरीसृप साँप हैं।

Q.52. Which block has set up a task force to monitor OpenAI's ChatGPT? / OpenAI के ChatGPT की निगरानी के लिए किस ब्लॉक ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है?

- (a) SAARC / सार्क
- (b) EU / यूरोपीय संघ
- (c) ASEAN / आसियान
- (d) G-20 / जी-20

Q.53. If all birds can fly, and some birds are blue, then which of the following statements must be true? / यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, और कुछ पक्षी नीले हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए?

- (a) Some blue things can fly. / कुछ नीली चीजें उड़ सकती हैं।
- (b) No blue things can fly. / कोई नीली चीज उड़ नहीं सकती है।
- (c) All birds are blue. / सभी पक्षी नीले हैं।
- (d) Some birds can't fly. / कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते।

Q.54. Which country recently received the 'GSMA Government Leadership Award 2023'? किस देश को हाल ही में 'GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023' मिला है?

- (a) USA / यूएसए
- (b) China / चीन
- (c) India / भारत
- (d) Japan / जापान

Q.55. What is the theme of International Women's Day 2023? / अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है?

- (a) DigitALL: Innovation and technology for gender equality / डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी
- (b) Gender and Financial Inclusion / लिंग और वित्तीय समावेशन
- (c) Financial Independence of women / महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता
- (d) Representation: Equality of women / प्रतिनिधित्व: महिलाओं की समानता

Q.56. Galathea Bay National Park is situated in which state / UT? / गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?

- (a) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- (b) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
- (c) Goa / गोवा
- (d) Andaman and Nicobar Islands / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Q.57. Mohinattam dance form is most popular in which state? / मोहिनाट्टम नृत्य किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है?

- (a) Kerala / केरल
- (b) Karnataka / कर्नाटक
- (c) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- (d) Rajasthan / राजस्थान

Q.58. The capital city of Vietnam is/ वियतनाम की राजधानी शहर है

- (a) Hanoi / हनोई
- (b) Ho Chi Minh City / हो ची मिन्ह सिटी
- (c) Ulaanbaatar / उलानबटार
- (d) Vientiane / वियनतियाने

- Q.59. Headquarters of World Meteorological organization is / विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है
 (a) New York/ न्यूयॉर्क (c) Geneva / जिनेवा
 (b) Paris/ पेरिस (d) Vienna / वियना
- Q.60. Every year, International Literacy Day is observed on / हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है
 (a) 08 march / 08 मार्च (c) 09 April / 09 अप्रैल
 (b) 08 September / 08 सितंबर (d) 10 October / 10 अक्टूबर
- Q.61. Who is the current Managing director and CEO of IMF? / आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन हैं?
 (a) Kristalina Georgieva/क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (d) Dominique Strauss Kahn / डोमिनिक स्ट्राँस कान
 (b) Horst Kohler/ होस्ट कोह्लर
 (c) Christine Lagarde / क्रिस्टीन लेगार्ड
- Q.62. Who is the present Railway Minister of India? / भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं?
 (a) Piyush Goyal / पीयूष गोयल (c) DV Sadananda Gowda/डीवी सदानंद गौड़ा
 (b) Ashwini Vaishnaw / अश्विनि वैष्णव (d) Suresh Prabhu/ सुरेश प्रभु
- Q.63. Which is the largest lake in the world? / विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
 (a) Lake Victoria / विक्टोरिया झील (c) Lake Superior / सुपीरियर झील
 (b) Caspian Sea / कैस्पियन सागर (d) Lake Baikal / बैकाल झील
- Q.64. In Lawn Tennis, who won the Argentina Open Title in 2023? / लॉन टेनिस में, 2023 में अर्जेन्टीना ओपन का खिताब किसने जीता?
 (a) Rafael Nadal / राफेल नडाल (c) Siome Bolelli / सियोम बोलेली
 (b) Cameron Norrie / कैमरून नॉरी (d) Carlos Alcaraz / कार्लोज़ अल्कराज
- Q.65. India's first Glass Igloo Restaurant is inaugurated in which state / UT? / भारत के पहले ग्लास इग्लू रेस्तरां का उद्घाटन किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है?
 (a) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश (c) Jammu and Kashmir / जम्मू और कश्मीर
 (b) Sikkim / सिक्किम (d) Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश
- Q.66. In which state in the famous Somnath temple located / प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है?
 (a) Rajasthan / राजस्थान (c) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
 (b) Gujarat / गुजरात (d) Maharashtra / महाराष्ट्र
- Q.67. At which city is the Head office of reserve bank of India located? / भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
 (a) Delhi / दिल्ली (c) Chandigarh / चंडीगढ़
 (b) Mumbai / मुंबई (d) Bangalore / बैंगलोर
- Q.68. Who among the following eminent personalities received Padma Vibhushan in the year 2023? / निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसको वर्ष 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ?
 (a) Buddhasaheb Bhattacharjee / बुद्धसाहेब भट्टाचार्य
 (b) Sandhya Mukherjee / संध्या मुखर्जी
 (c) EMS Namboodiripad / ईएमएस नंबूदरीपाद
 (d) Zakir Hussain / जाकिर हुसैन
- Q.69. Which article of the Indian Constitution was recently invoked by the Central Government of India to resolve the crises situation in Manipur? / मणिपुर में संकट की स्थिति को हल करने के लिए हाल ही में भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया था?
 (a) Article 355 / अनुच्छेद 355 (c) Article 360 / अनुच्छेद 360
 (b) Article 356 / अनुच्छेद 356 (d) Article 362 / अनुच्छेद 362

- Q.70. Which space agency launched the Juice Mission to search for life on Jupiter's moons? / बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया?
- (a) NASA / नासा
 - (b) European Space Agency (ESA) / यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए)
 - (c) Russian Space Agency (Roscosmos) / रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रोस्कोस्मोस)
 - (d) China National Space Administration/ चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन
- Q.71. Who won the gold medal for India in the 2023 Asian Wrestling Championships? / 2023 एशियाई वेस्टलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता?
- (a) Aman Sherawat / अमन शेरावत
 - (b) Sushil Kumar / सुशील कुमार
 - (c) Bajrang Punia / बजरंग पुनिया
 - (d) Yogeshwar Dutt / योगेश्वर दत्त
- Q.72. The Bandipur National park is located in? / बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
- (a) Rajasthan / राजस्थान
 - (b) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
 - (c) Karnataka / कर्नाटक
 - (d) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- Q.73. 'Sedna' is the name of a _____? / 'सेडना' एक _____ का नाम है?
- (a) Planet/ ग्रह
 - (b) Asteroid / क्षुद्रग्रह
 - (c) Satellite / उपग्रह
 - (d) Missile/ मिसाइल
- Q.74. Kilowatt-hour is a unit of _____? / किलोवाट-घंटा _____ की इकाई है?
- (a) Power / शक्ति
 - (b) Energy / ऊर्जा
 - (c) Time / समय
 - (d) None of these / इनमें से कोई नहीं
- Q.75. The paintings of Ajanta depict stories of the _____? / अजंता के चित्र _____ की कहानियों को दर्शाते हैं?
- (a) Ramayana / रामायण
 - (b) Mahabharata / महाभारत
 - (c) Jatakas/ जातक
 - (d) Panchatantra / पंचतंत्रा

ALL THE BEST